

प्रेस नोट:- जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 31.08.2020

थाना कटरा पुलिस मिली बड़ी कामयाबी,

सऊदी अरब की मुद्रा दिखाकर रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड,

महिला सहित 02 शातिर ठग गिरफ्तार, सऊदी की मुद्रा, ठगी के रुपये आदि बरामद।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी तिलहर पर्यवेक्षण में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 23.07.2022 को वादी श्री नफीस अहमद खलील अहमद निवासी मो0 बाजार कस्बा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा थाना पर तहरीर देकर सूचना दर्ज करायी गयी कि एक महिला सऊदी अरब के रुपये का लालच देकर धोखाधड़ी करके अखबार के कागज की गड्डी देकर चली गयी जिसके सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु0अ0सं0 397/2022 धारा 406/420 भादवि पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 31.08.2022 को वादी मुकदमा ने आकर सूचना दी वही महिला आज फिर किसी के साथ धोखा धड़ी करने की फिराक में है इसी क्रम में श्री धर्मेन्द्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा की पुलिस टीम द्वारा समय 07.00 बजे वादी की सूचना पर **जलालाबाद रोड जूनियर हाई स्कूल के सामने से** मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 महिला एवं 01 पुरुष को मोटर साईकिल के मय 11 नोट 50-50 के सऊदी अरब की मुद्रा रियाल तथा एक थैले में अखबार का बंडल व ठगी के 5000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया। विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय पेशी हेतु रवाना किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मोहम्मद अली शेख पुत्र सादान शेख मूल निवासी ग्राम लावा थाना अन्दावास जिला कटियार बिहार हाल पता 609/84 इन्द्रा कालोनी मण्डावली फाजलपुर पूर्वी दिल्ली 110092।
2. कुल्सुम पत्नी मो0 अली शेख निवासी ग्राम लावा थाना अन्दावास जिला कटियार बिहार हाल पता 609/84 इन्द्रा कालोनी मण्डावली फाजलपुर पूर्वी दिल्ली 110092।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-सऊदी अरब की करेंसी रियाल 50-50 के 11 नोट।
- 2-एक मोटरसाइकिल न0 UP-22 F-1105
- 3-एक थैले में अखबार का बंडल (रोल बना हुआ)
- 4-ठगी के 5000/- रुपये।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हयात नामक का युवक हमें साऊदी अरब की मुद्रा उपलब्ध कराता है तथा ठगी होने के उपरांत हमें बदले में 5000/- रुपये देता है। यह लोग नोटों का बण्डल बनाने के लिए बीच में साबुन रखते थे तथा अखबार से लपेट देते थे। पूछताछ के दौरान अन्य तथ्य प्रकाश में आये हैं जिनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 रतिराम सिंह थाना कटरा जनपद शाह0
2. हे0का0 29 जितेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
3. का0 2045 विकास कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
4. का0 2268 विक्रान्त नैन थाना कटरा जनपद शाह0
5. म0का0 2364 अनुराधा थाना कटरा जनपद शाह0